



ऑस्ट्रेलिया भारतीय रहा कि स्कॉट बोलैंड टीम में आ गए और बोलैंड नहीं खेलते तो भारत सीरीज जीत जाता।
- आर. अश्विन

पूर्व भारतीय गेंदबाज, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बोलैंड के बारे में बोलते हुए।

खेल जगत

// सरफराज खान पर लगा सनसनीखेज आरोप //

टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूप की बातें की लीक?

ईदिल्ली, 15 जनवरी ऑस्ट्रेलिया दौर पर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूप में अनबन कई खबरें बाहर आई थीं इसके बाद जमकर बवाल मचा था। भारतीय टीम के हेड कोच ने गोम गंभीर ने तब कहा है कि अपना खिलाड़ियों और कोच की बातें उनके तक ही सीमित रहे, वहीं टीम के सभी माहौल लिए अच्छा होता है। अब भारत लीटोन के बाद चीजों को लेकर एक रिपोर्ट मीटिंग की इस दौरान गंभीर ने दौर पर गर सरफराज खान पर धोखा देने का आपले लगा दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मीटिंग में दाव किया कि सरफराज ने ही सारी बातें लीक की बोल्ड के अधिकारियों ने हाल ही में टीम इंडिया हेड कोच के चैफ सेलेक्टर



बाताया कि सरफराज खान ड्रेसिंग रूप को भड़कने की बात कही गई थी। मेलबर्न में बाहर निकाल दिया गया था। अब सबाल ये है कि बोल्ड फिर से ऐसा रिपोर्ट आरोपित करेगा। दूसरे एक खिलाड़ियों को टीम से खिलाड़ियों के बाद रोहित शर्मा-विराट कोहली समेत पूरी टीम पर ड्रेसिंग रूप में गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा था। गंभीर के अलावा मिस्टर फिक्स इट के नाम से एक

खबर छापी थी। इसे लेकर मीडिया रिपोर्टर्स में खुलासा हुआ था कि टीम का एक खिलाड़ी बुमराह को कानान बनाने के पक्ष में नहीं था। ये खिलाड़ी खुद को अंतर्मित कराना के रूप में फेश कर रहा था। हालांकि, इस खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन विराट कोहली ये खिलाड़ी बताए जा रहे थे।

हालांकि, गंभीर के अपनी दावों को लेकर कोई सबूत दिया गया है कि नहीं ये अभी साफ नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले 2019 वनडे वर्ल्ड कप पर दौरा के दौरान भी रोहित और विराट के बीच लड़ाई की खबरें लीक हुई थीं। इसके बाद एक-दो खिलाड़ियों को टीम से खिलाड़ियों के बाद रोहित शर्मा-विराट कोहली द्वारा समेत पूरी टीम पर ड्रेसिंग रूप में गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा था। गंभीर के अलावा मिस्टर फिक्स इट के नाम से एक

खबर का जिक्र किया, जिसमें मेलबर्न टेस्ट



तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे। एक बार ऐसा हो जाता है

साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया

कि, बुमराह आगे होने तक संरेट और एक्सोलेंस जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई

चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका

बेड रेस्ट पर रहेंगे जसप्रीत बुमराह

ईदिल्ली, 15 जनवरी। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में बाताया गया कि स्टर्न गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बेड रेस्ट पर रहना होगा। बुमराह के आगे खेलने का फैसला उनके बैक की सुन्नत ठीक होने के बाद ही होगा। बुमराह पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया दौर से घर पर लापस लोटे, जिसके बाद गोम गंभीर एक्सोलेंस में सेंटर और जायेंगे लेकिन अभी उसके लिए तारीख तय नहीं है। इसके अलावा बाताया गया कि बुमराह की वापसी को लेकर जल्दबाजी नहीं की जाएगी। उन्हें फिलहाल घर पर रेस्ट करने के लिए काया गया है।

साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया

कि, बुमराह आगे होने तक संरेट और एक्सोलेंस जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई

एक्सोलेंस जा सकते हैं, लेकिन अभी

उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

तारीख तय नहीं है। उन्हें घर पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। जिससे मासपेशियों रिकवर हों और सूजन हटे।

